

गोवदि बल्लभ पंत

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी गोवदि बल्लभ पंत की प्रतिमा का अनावरण नई दिल्ली के पंडित पंत मार्ग पर किया गया है।

- यह मूर्ता पहले रायसीना रोड सर्कल के पास स्थित थी, जिसे यहाँ से स्थानांतरित किया गया है क्योंकि यह 'नए संसद भवन' की संरचना के भीतर आ रही थी।



प्रमुख बदि

संक्षिप्त परिचय

- गोवदि बल्लभ पंत को देश के सबसे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और एक कुशल प्रशासक के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने आधुनिक भारत के मौजूदा स्वरूप को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी।
- उन्होंने वर्ष 1937-1939 के बीच संयुक्त प्रांत के प्रीमियर, वर्ष 1946-1954 तक उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और वर्ष 1955-1961 तक केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में कार्य किया।
 - उन्हें वर्ष 1957 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से भी सम्मानित किया गया था।

प्रारंभिक जीवन

- गोवदि बल्लभ पंत का जन्म 10 सितंबर, 1887 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ था।
- जब वे 18 वर्ष के थे, तो उन्होंने गोपालकृष्ण गोखले और मदन मोहन मालवीय को अपना आदर्श मानते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के सत्रों में एक स्वयंसेवक के रूप में काम करना शुरू किया।
- वर्ष 1907 में उन्होंने कानून का अध्ययन करने का निर्णय लिया और कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद वर्ष 1910 में उन्होंने अल्मोड़ा में वकालत शुरू कर दी और बाद में वे काशीपुर (उत्तराखंड) चले गए।
- काशीपुर में उन्होंने 'प्रेम सभा' नामक एक संगठन की स्थापना की, जिसने विभिन्न सामाजिक सुधारों की दृष्टि में काम करना शुरू किया, इस दौरान इस संगठन ने ब्रिटिश सरकार को करों का भुगतान न करने के कारण एक स्कूल को बंद कर दिया जाने से भी बचाया।

राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान

- गोवदि बल्लभ पंत दसिंबर 1921 में कॉन्ग्रेस में शामिल हुए और जल्द ही असहयोग आंदोलन का हस्सा बन गए ।
- वर्ष 1930 में गांधी जी के कार्यों से प्रेरति होकर 'नमक मार्च' का आयोजन करने के कारण उन्हें कैद कर लिया गया ।
- वह उत्तर प्रदेश (तत्कालीन संयुक्त प्रांत) विधानसभा के लिये नैनीताल से 'स्वराजवादी पार्टी' के उम्मीदवार के रूप में चुने गए थे ।
 - सरकार में रहते हुए उन्होंने ज़मींदारी प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से कई सुधार किये ।
 - उन्होंने देश भर में कूटीर उद्योगों को प्रोत्साहित किया और कुली-भिक्षुक कानून का भी वरिध किया, जिसके तहत कुली और भिक्षुकों को बना किसी पारिश्रमिक के बरतिश अधिकारियों का भारी सामान ढोने के लिये मजबूर किया जाता था ।
 - गोवदि बल्लभ पंत सदैव अल्पसंख्यक समुदाय के लिये एक अलग नरिवाचक मंडल के खिलाफ रहे, वे मानते थे कियह कदम समुदायों को वभिाजति करेगा ।
- द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पंत जी ने गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के गुटों के बीच समझौता करने का भी प्रयास किया, जहाँ एक ओर गांधी जी और उनके समर्थक चाहते थे कि युद्ध के दौरान बरतिश शासन का समर्थन किया जाए, वहीं सुभाष चंद्र बोस गुट का मत था कि इस युद्ध की स्थितिका प्रयोग किसी भी तरह से बरतिश राज को समाप्त करने के लिये किया जाए ।
- वर्ष 1942 में उन्हें भारत छोड़ो प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिये गरिफ्तार किया गया और उन्होंने मार्च 1945 तक कॉन्ग्रेस कार्य समिति के अन्य सदस्यों के साथ अहमदनगर कल्ले में कुल तीन वर्ष बतिए ।
 - अंततः पंडति नेहरू खराब स्वास्थ्य के आधार पर पंत जी को जेल से छुड़ाने में सफल रहे ।

स्वतंत्रता के बाद

- स्वतंत्रता के बाद गोवदि बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने । उन्होंने किसानों के उत्थान और असपृश्यता के उन्मूलन की दशा में महत्त्वपूर्ण कार्य किया ।
- सरदार पटेल की मृत्यु के बाद गोवदि बल्लभ पंत को केंद्र सरकार में गृह मंत्री बनाया गया था ।
- गृह मंत्री के तौर पर उन्होंने हदिी को राष्ट्रभाषा बनाने का समर्थन किया ।

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/pandit-govind-ballabh-pant>

